



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12]  
No. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/वोष 17, 1905  
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

ऊर्जा मंत्रालय  
(कोयला विभाग)

अधि सूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 13 (अ) —केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रकृत रखा गया कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 और 4 के अनुसरण में और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 363(अ) तारीख 26 मई, 1982 को अधिस्तंभ करने हुए, तारीख 8 जनवरी, 1984 से ही प्रभावी नीचे की सारणी-1 में दी गई वर्ग और ग्रेड चिह्नित करती हैं जिनमें कोयले और कोक का वर्गीकरण किया जाएगा और नीचे सारणी-2, 3, 4, 5 और 6 में वे खान गर्तमुख बिक्री कीमतें नियत करती हैं जिनपर कोयला खान म्बामियों द्वारा कोयले का कोक का विनय किया जा सकता है:

सारणी-1

क्र०सं०	वर्ग	ग्रेड	ग्रेड चिह्नित
(1)	(2)	(3)	(4)

1. आन्ध्र प्रदेश, असम, ए. उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलो-  
मेघालय, नागालैंड ग्राम 6200 किलो कैलोरी से  
और असमान प्रदेश अधिक ।

(1)	(2)	(3)	(4)
संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित गैर कोक-कारी कोयला	बी	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं ।	
	सी	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक नहीं ।	
	डी	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं ।	
	ई	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं ।	
	एफ	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से	

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
		अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।			बी हाइड्र राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं।		
	जी	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।		टिप्पण :—			
2. आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित गैर-कोककारी कोयला	—	ग्रेड निश्चित नहीं किया गया।		1. कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जो तत्कालीन कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन कोककारी कोयले के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, या वे कोयले हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन कोककारी कोयला घोषित किया गया है, या घोषित किया जा सकता है।			
3. कोककारी कोयला	इस्पात	राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-I	2. अर्द्ध कोककारी कोयले और क्षीण कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन सम्मिश्रण योग्य कोयले वर्गीकृत किया गया था, या जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन "अर्द्ध कोककारी" या "क्षीण कोककारी" कोयले घोषित किया जा सकता है।			
	इस्पात	राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-II	3. कोककारी या अर्द्ध कोककारी या क्षीण कोककारी कोयला से-भिन्न सभी कोयले गैर-कोककारी कोयले हैं।			
	वायरी	राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-I	4. "उपादेय ऊष्मा मूल्य" की परिभाषा का सूत्र निम्नलिखित है :— $\text{एच यू} = 8900 - 138 \times (\text{ए} + \text{एम})$ जहाँ एच यू = प्रति किलोग्राम का किन्तु कैलोरी के अनुसार उपादेय ऊष्मा मूल्य। $\text{ए} = \text{राख का अंश प्रतिशत में।}$ $\text{एम} = \text{नमी का अंश प्रतिशत में।}$			
	वायरी	राख का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-II	जिस कोयले में 2% से कम नमी है, और वाष्पशील अंश 19% कम है उसके संबंध में उपादेय ऊष्मा मूल्य वह होगा जो उपरोक्त सूत्र से निकाले गए मूल्य में से, वाष्पशील अंश में 19% से कम होने वाली प्रत्येक 1% कमी के लिए 150 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। यहाँ छोटे प्रभाजों (फ्रैक्शन्स) के लिए अनुपात के अनुसार कमी की जाएगी।			
	वायरी	राख का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-III	नमी और राख दोनों का अवधारण, भारतीय मानक विनिर्देश सं० भा० मा० 1350-1959 के सुसंगत खण्डों के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आर्द्रता और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।			
	वायरी	राख का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-IV	5. कोककारी कोयले और हाई कोक में राख के प्रतिशत का अवधारण भा० मा० 1350-1959 के अनुसार वायु में बुझाने के पश्चात् किया जाएगा यदि इस प्रकार अवधारित नमी 2 प्रतिशत से अधिक है तो यह अवधारण भा० मा० 1350-1959 के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आर्द्रता और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।			
4. अर्द्ध कोककारी और क्षीण कोककारी कोयला	अर्द्ध कोककारी	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-I	6. उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय मानक विनिर्देश सं० भा० मा० 770-1964 के अधीन विनिर्दिष्ट बिटुमेनी या उप-बिटुमेनी कोयलों से भिन्न अन्य कोयलों पर लागू नहीं होगा।			
	अर्द्ध कोककारी	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।	ग्रेड-II				
5. हाई कोक	उप-उत्पाद	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।	प्रीमियम				
	उप-उत्पाद	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं।					
	बी हाइड्र राख	का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं।					
	बी हाइड्र राख	का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं।					

## सारणी-2

## कोककारी कोयला

कोयले का ग्रेड	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में	प्रति टन बिजली कीमत		
		स्कीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला और बाजरी मिडिलिग्म	रन आफ माइन कोयला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 नीचे के टिप्पण 1 में उल्लिखित कोयला खानों द्वारा उत्पादित दीर्घ ज्वाला कोयला :—		₹० पै०	₹० पै०	₹० पै०
ग्रेड-ए 6200 से अधिक		299.00	292.00	289.00
ग्रेड-बी 5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं		272.00	265.00	262.00
ग्रेड-सी 4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं		238.00	231.00	228.00
ग्रेड-डी 4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं		212.00	205.00	202.00
3. आन्ध्र प्रदेश (सिगरैनी कोयला क्षेत्र) अरम, मेघालय, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित (दीर्घ ज्वाला कोयला से सिद्ध) कोयला :				
		₹० पै०	₹० पै०	₹० पै०
ग्रेड-ए 6200 से अधिक		274.00	267.00	264.00
ग्रेड-बी 5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं		247.00	240.00	237.00
ग्रेड-सी 4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं		213.00	206.00	203.00
ग्रेड-डी 4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं		187.00	180.00	177.00
ग्रेड-ई 3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं		135.00	128.00	125.00
ग्रेड-एफ 2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं		105.00	98.00	95.00
ग्रेड-जी 1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं		71.00	64.00	61.00
3 आन्ध्र प्रदेश राज्य (सिगरैनी कोयला क्षेत्र) में उत्पादित कोयला अवर्गीकृत		202.00	195.00	192.00
4 अरम, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों और अरुणाचल संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादित कोयला : अवर्गीकृत		—	—	310.00
हाथ से निकाला गया (राज्य का अंश 10 प्रतिशत से अधिक नहीं)		—	—	440.00

## सारणी-3

## कोककारी कोयला

ग्रेड	राज्य का अंश	प्रति टन बिजली कीमत		
		स्कीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		₹० पै०	₹० पै०	₹० पै०
हस्तात ग्रेड-I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	160.00	453.00	450.00
हस्तात ग्रेड-II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	380.00	373.00	370.00
बाजरी ग्रेड-I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	325.00	318.00	315.00
बाजरी ग्रेड-II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	267.00 से अधिक नहीं	260.00 से अधिक नहीं	257.00 से अधिक नहीं
बाजरी ग्रेड-III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	200.00 से अधिक नहीं	193.00 से अधिक नहीं	190.00 से अधिक नहीं
बाजरी ग्रेड-IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	185.00	178.00	175.00

## सारणी-4

अर्द्ध कोककारी और क्षीण कोककारी कोयला

ग्रेड	राख घन नमी का अंश	प्रति टन बिक्री कीमत		
		स्कीम कोयला और कंकड़	स्वैक कोयला	रत प्राक माईल कोयला
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
अर्द्ध कोककारी ग्रेड-I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	325.00	318.00	315.00
अर्द्ध कोककारी ग्रेड-II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	267.00	260.00	257.00

## सारणी-5

हार्ड कोक

कोक का प्रकार	राख का अंश	प्रति टन बिक्री कीमत	
		रु०	पै०
1. उप-उत्पाद हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	1050.	00
2. उप-उत्पाद हार्ड कोक साधारण	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	950.	00
3. बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं	780.	00
4. बीहाइव हार्ड कोक सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं	640.	00
5. बीहाइव हार्ड कोक साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं	450.	00

## सारणी-6

साफ्ट कोक

कोक का प्रकार	प्रति टन बिक्री कीमत
	रु० पै०
1. साफ्ट कोक	175.00.

टिप्पणी :—

1. दीर्घ ज्वाल कोयला से अभिप्रेत है रातीगंज कोयला क्षेत्र (पश्चिमी बंगाल) और कोरिया-रीवा (मध्य प्रदेश) में स्थित निम्नलिखित कोयला खानों में उत्पन्न ग्रेड ए, बी, सी, और डी का गैर कोककारी कोयला :—

रातीगंज कोयला क्षेत्र :

क्रम सं० कोलियरी का नाम

1. पाण्डुरी
2. परबेलिया
3. चीनाकुरी-II
4. चीनाकुरी-III
5. मैथानी
6. बैजडीह
7. पटमोहना
8. बरमादिया
9. धेमोमेन
10. रामजीबनपुर
11. मनोहरबहल
12. गिरीमिट

कोरिया-रीवा कोयला क्षेत्र

क्रम सं० कोलियरी का नाम

1. न्यूरोजाबाद
2. कोटमा
3. कुरासिया
4. बुगहर
5. अमलई
6. कंगटा
7. मोनाबानी
8. दुमन हिल
9. वेस्टचिरीमिरी
10. कटकना
11. मलगा

13. एडजवाय-II

14. भतारा
15. अमुरिया
16. श्रीपुर
17. राणा

18. एम०एम०आई०

19. निघा
20. घुसिक
21. कालीपहाड़ी
22. दमरा
23. मोबपुर ओ०का०प०
24. तीरत
25. कौरडीह
26. रसीवती
27. चपुईबाब
28. मणग्राम
29. जेमेहारी
30. जे०मू०नगर
31. पूरे सियरमोल

32. बिनाली
33. भीष्मापुर
34. निमबा
35. निमबा ओ०का०प०
36. अमृतनगर
37. महाबोर
38. नार्थ मिथरसोल
39. बनमरा
40. वृन्स्टारिया
41. मोपामी
42. बेलबेद
43. परामिया
44. परामिया 15/7 इन्वलाइन
45. परामिया ओ०का०प०
46. कुष्णासनगर
47. ल्यू केन्दा
48. लोअर केन्दा
49. धारा
50. हरीपुर
51. बहुला
52. सी० एन० जम्बाद
53. सिक्ली
54. के०के० ओ०का०प०
55. धोरा ओ०का०प०
56. खास काजोरा
57. पारमकांती
58. मधुप्रोरे
59. माधवपुर
60. मधुमुदतपुर
61. ना०बा काजोरा
62. जम्बाद
63. लाचीपुर
64. धनश्याम
65. धनश्याम ओ०का०प०
66. घंडाडीह ओ०का०प०
67. बकोला
68. एम०एन० पुर
69. मोरिया
70. लम्दा
71. शंकरपुर
72. टीलाबोली
73. कुमारडीह-ए
74. कुमारडीह-बी
75. मोरडाह ओ०का०प०
76. पाडेण्डर
77. केन्दा
78. समला
79. खोटाडीह
80. मंदिबोली
81. मधुप्रोरे
82. शम्बा
83. लुननंगा
84. दालुबंद
85. दालुबंद ओ०का०प०
86. पी०पी० ओ०का०प०

2. रन आफ माइन मभी आकारों का ऐसा कोयला है [जिस का वह खान से निकाला गया है और जो तोड़ा हुआ या छत्ता नहीं होता।

3. रन आफ माइन कोयले का जो अंश छताई के समय छलनी में रह जाता है या जो खदान के दौरान फोर्क-शेवेल से उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाता है।

4. रन आफ माइन कोयले से स्टीम कोयला निकालने के पश्चात् जो अंश बच जाता है उसे ब्लैक कोयला कहा जाता है।

5. यदि रन आफ माइन कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक में छताई की जाती है तो उससे तीन भिन्न आकार अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें जो कोयला श्रेष्ठांकन बड़े आकार के छिद्रों में उभर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा। जो अंश इन बड़े छिद्रों से होकर दूसरे छोटे छिद्रों के ऊपर रह जाता है उसे (कंकड़ कोयला) कहा जाएगा और जो इन छलनियों से छनकर नीचे चला जाता है उसे ब्लैक कोयला कहा जाएगा।

6. रन आफ माइन कोयले की जो सबसे बड़ी आकार के 200 मि० मी० और 250 मि०मी० के बीच किसी सीमा तक सीमित रखने के लिए छाना या तोड़ा गया है, कीमत उमी दर से होगी जो ब्लैक कोयले की

7. कोयले के उन ढेरों को हाथ से निकाले गए कोयले कहने है जो कि असम, मेघालय, और त्रिपुरा राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की कोयला खातों के रन आफ माइन कोयले से निकाले जाते

8. जो कोयला कोयला, क्षीण कोयला और अर्द्ध कोयला कोयला मारणी 1 में दिए गए वर्गीकरण के बाहर है, उसमें कीमत नियत करने और उसका वर्गीकरण करने के उद्देश्य से गैर कोयला कोयला माना जाएगा।

9. जब नमी का अंश यथाप्राप्त आधार पर जैसा कि बाधरी में मिडिलिंग के भा० मा० 1350-1959 के अधीन परिभाषित किया गया है। 10 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो मारणी 2 में नियत मिडिलिंग की कीमत यथानुपात भाग में 10 प्रतिशत से ऊपर नमी के प्रत्येक एक प्रतिशत पर एक रुपये की दर से कम की जाएगी।

10. जब अकोयला कोयले का उपादेय उष्मा मूल्य प्रतिकिलो ग्राम 6400 किलो कैलोरी से अधिक हो जाता है तो मारणी 2 के अनुसार ग्रेड "ए" कोयले के लिए देय की कीमत प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए 1 रु० की दर से बढ़ा दी जाएगी, जिससे से वार्षिक "उपादेय उष्मा मूल्य" यथानुपात भाग में 6400 किलो कैलोरी से अधिक होता है।

11. ऊपर नियत की गई खान गर्तमुख कीमतें रेल परिवहन शुल्क कोयला खान सार्विडिंग कीमतें हैं किन्तु जहां कोयले या कोयला का गड़क द्वारा लम्बी दूरी तय करके खान गर्तमुख से लदान स्थल तक ले जाने के लिए कोई पृथक करार विद्यमान है या किए जाते हैं तो खान गर्तमुख से इस प्रकार की ठगवाई की लागत ऐसे करारों के अनुसार होगी।

12. मारणी 2 और 3 और 4 में नियत की गई खान गर्तमुख कीमतों में सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उपहीन स्वामित्व और उपकर यदि कोई हो, उत्पाद शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं है।

शंकाओं के निवारण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोयला खान स्वामी उपयुक्त, गारणियों में नियत खान गर्तमुख कीमतों में स्वामित्व, उपकर, उत्पाद-शुल्क और विक्रय कर के परस्पर रकम जोड़ने के हकदार होंगे। बाधरी मिडिलिंग की दशा में जोड़ी जाने वाली रकम वह रकम होगी जो उतने ही उपादेय उष्मा मूल्य वाले कच्चे कोयले पर देय है।

13. मारणी 5 में नियत की गई हार्डकोक की खान गंतमुख कीमतों और मारणी 6 में नियत की गई साफ्ट कोक की खान गंतमुख कीमतों में कोक वितरित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर या हार्ड कोक अथवा साफ्ट कोक पर लगाए गए उत्पाद शुल्क, स्वामित्व, उपकरण और विक्रय कर सम्मिलित नहीं है। कोयला खान स्वामी, हार्ड कोक और साफ्ट कोक के क्रैताओं से इन कोयलों के लिए नियत कीमतों के अतिरिक्त ऐसे उत्पादशुल्क, स्वामित्व, उपकरण और विक्रय कर की रकम वसूल करने के हकदार होंगे। जब यह लागू (इम्प्लोस्ट) कोक वितरित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर लगाया जाता है तो साफ्ट कोक और हार्ड कोक के प्रतिटन पर वसूली मांग्य राशि साफ्ट कोक के लिए कच्चे कोयले की दर की 1.35 से गुणा करके तथा हार्ड कोक के लिए कच्चे कोयले की दर की 1.50 से गुणा करके अभिविशित की जाएगी।

14. नियत की गई कीमतें भारत से बहार निर्यात के लिए विक्रय किए गए कोक या कोयले पर लागू नहीं होंगी।

15. कोयले की विशेष आकार का बनाने या उसका मजबूतीकरण करने के लिए व अतिरिक्त प्रभार लिए जा सकते हैं जो क्रैता और उत्पादक के बीच बातों द्वारा उक्त नियत कीमतों के अतिरिक्त देना और लेना तय किए गए।

16. मारणी 5 में हार्ड कोक के लिए नियत की गई कीमत और मारणी 6 में साफ्ट कोक के लिए नियत की गई कीमत छोटे आकार के कोक, 12 मिलीमीटर आकार से कम के कोक बीज, कम ताप कार्बोनी-कुल कोक, प्येटाईकुल कोक या ब्रिक्डम पर लागू नहीं होंगी।

17. उप-उत्पाद हार्ड कोक प्रीमियम और बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम के लिए मारणी 5 में नियत की गई कीमतों में, यथानुपात भाग में 23 प्रतिशत से कम राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत कामों के लिए 30 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।

18. उप-उत्पाद हार्ड कोक माधारण के लिए मारणी 5 में नियत की गई कीमतों में, यथानुपात भाग में 30 प्रतिशत से ऊपर राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 25 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।

19. बीहाइव हार्ड कोक माधारण के लिए मारणी 5 में नियत की गई कीमतों में यथानुपात भाग में 36 प्रतिशत से ऊपर राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 20 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।

20. जब अर्द्ध कोककारी ग्रेड-1 कोयलों के राख घन नमी का अंश 17 प्रतिशत से कम है तब मारणी 4 के अनुसार अर्द्ध-कोककारी ग्रेड-1 कोयलों के लिए देय कीमतों में यथानुपात भाग में 17 प्रतिशत से कम राख घन नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिए 5 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।

[सं० 28012/1/82-बी ए.]

ल०ना० लड्डा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1984

**S.O. 13(E).**—In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 363(C), dated the 26th May, 1982, the Central Government, with effect

on and from the 8th Jan. 1984, hereby prescribes in Table I below the classes and grades into which coal and coke shall be classified and fixes in Tables, II, III, IV, V and VI below the pithead sale prices at which coal or coke may be sold by colliery owners :

TABLE-I

Sl. No.	Class	Grade	Grade specification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non-Coking Coal produced in all States other than Andhra Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland and the Union Territory of Arunachal Pradesh	A	Useful heat value exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.
		B	Useful heat value exceeding 5600 kilo-calories per Kilogram but not exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.
			Useful heat value exceeding 4940 kilo-calories per kilogram but not exceeding 5600 kilo-calories per kilogram.
			Useful heat value exceeding 4200 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4940 kilo-calories per kilogram.
		E	Useful heat value exceeding 3360 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4200 kilo-calories per kilogram.
		F	Useful heat value exceeding 2400 kilo-calories per kilogram but not exceeding 3360 kilo-calories per kilogram.
		G	Useful heat value exceeding 1300 kilo-calories per kilogram but not exceeding 2400 kilo-calories per kilogram.
2.	Non-coking coal produced in the States of Andhra Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland and the Union Territory of Arunachal Pradesh.		Not graded.
3.	Coking Coal	Steel Grade I.	Ash content not exceeding 15 per cent.
		Steel Grade II.	Ash content exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.
		Washery Grade I.	Ash content exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.
		Washery Grade II.	Ash content exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.
		Washery Grade III.	Ash content exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.

1	2	3	4
		Washery Grade IV.	Ash content exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4. Semi-coking and weakly coking coals.	Semi-coking Grade I		Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent.
	Semi-coking Grade II.		Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.
5. Hard coke	By-product Premium		Ash content not exceeding 25 per cent.
	By-product Ordinary		Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.
	Beehive Premium		Ash content not exceeding 27 per cent.
	Beehive Superior		Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.
	Beehive Ordinary		Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.

Notes:—

1. Coking coals are such coals as have been classified as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules or regulations made thereunder.

2. 'Semi-coking coals' and 'weakly coking coals' are such coals as were classified as 'blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'semi-coking' or 'weakly-coking' coals by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made thereunder.

3. Coals other than coking or semi-coking or weakly coking coals are non-coking coals.

4. 'Useful Heat Value' is defined by the following formula

$$HU = 8900 - 138 \times (A \text{ plus } M).$$

where HU= Useful Heat Value in kilo calories per kilogram.

A= Ash content in percentage.

M= Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2% and volatile content less than 19%, the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilo calories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19% fraction pro-rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard specification No. IS:1350-1959.

5. Ash percentage of coking coal and hard coke shall be determined after air-drying as per IS : 1350-1959. If the moisture so determined is more than 2 per cent, the determination shall be after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per IS : 1350-1959.

6. The above classification shall not apply to coals other than Bituminous or sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard specification No. IS : 770-1954.

TABLE II

## Non-Coking Coal

Grade of Coal	Useful Heat Value in kilo calories per kilogram	Sale price per tonne of					
		Steam coal and Rubble		Slack coal and washery middlings		Run of Mine Coal	
		3	4	5			
1	2	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
1. Long-flame coal produced by calories listed in Note 1 Below:—							
Grade A.	Exceeding 6200	299.00		292.00		289.00	
Grade B.	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	272.00		265.00		262.00	
Grade C.	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	238.00		231.00		228.00	
Grade D.	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	212.00		205.00		202.00	
2. Coal (other than long flame coal) produced in all States except Andhra Pradesh (Singareni Coalfields), Assam, Meghalaya Nagaland and Union Territory or Arunachal Pradesh.							
Grade A	Exceeding 6200	274.00		267.00		264.00	
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	247.00		240.00		237.00	
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	213.00		206.00		203.00	
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	187.00		180.00		177.00	
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	135.00		128.00		125.00	
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	105.00		98.00		95.00	
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	71.00		64.00		61.00	
3. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields)—Ungraded.		202.00		195.00		192.00	
4. Coal Produced in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.							
Ungraded						310.00	
Hand Picked (Ash content not exceeding 10 per cent)						440.00	

TABLE—III

## Coking Coal

Grade	Ash content	Sale Price per tonne of			
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine Coal	
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent	460.00	453.00	450.00	
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.	380.00	373.00	370.00	
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.	325.00	318.00	315.00	
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.	267.00	260.00	257.00	
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.	Not exceeding 200.00	Not exceeding 193.00	Not exceeding 190.00	
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent	Not exceeding 185.00	Not exceeding 178.00	Not exceeding 175.00	

TABLE—IV

## Semi-Coking and Weakly Coking Coals

Grade	Ash plus Moisture content	Sale Price per tonne of			
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine Coal	
		(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
Semi-coking Grade I	Not exceeding 19 per cent.	325.00	318.00	315.00	
Semi-coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.	267.00	260.00	257.00	

TABLE—V

## Hard Coke

Type of Coke	Ash content	Sale price per tonne
(1)	(2)	(3)
		Rs. P.
1. By-product Hard coke Premium	Ash content not exceeding 25 per cent.	1050.00
2. By-product Hard coke Ordinary	Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.	950.00
3. Beehive hard coke Premium	Ash content not exceeding 27 per cent.	780.00
4. Beehive Hard coke Superior	Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.	680.00
5. Beehive Hard coke Ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.	450.00

TABLE—VI

Type of coke	Sale price per tonne
	Rs. P.
1. Soft coke	175.00



## Notes :

1. Long flame coals means non-coking coal of Grades A, B, C & D produced in the following collieries situated in the Raniganj Coalfield (West Bengal) and Korea-Rewa Coal field (Madhya Pradesh).

## Raniganj Coalfield :

1. Poidih.
2. Prabelia.
3. Chinakuri-II
4. Chinakuri-III
5. Methani
6. Bejdih
7. Patmohona
8. Barmodia
9. Dhemomain
10. Ramjibampur
11. Monoharabahal
12. Girimint
13. Adjoy-II
14. Bhanora
15. Jamuria
16. Sripur
17. Rana
18. S.S.I.
19. Ningah
20. Ghusick
21. Kalipahari
22. Damra
23. Seebpur OCP
24. Tirat
25. Kuardih
26. Ratibati
27. Chapulkhas
28. Satgram
29. Jamehari
30. J.K. Nagar
31. Pute Searsole
32. Benalee
33. Mithapur
34. Nimcha
35. Nimcha OCP
36. Amritnagar
37. Mahabir
38. North Searsole
39. Bansra
40. Kunustoria
41. Toposi
42. Belhaid
43. Parasea
44. Parasea 6/7 Incl.
45. Parsea OCP
46. Kirshanagar
47. New Kenda
48. Lower Kenda
49. Ghora
50. Haripur
51. Bahula
52. C.L. Jambad
53. Siduli
54. K.K. OCP
55. Ghora OCP
56. Khas Kajora
57. Parascole
58. Madhujore
59. Madhabpur
60. Madhusudanpur

## Korea-Rewa Coalfield :

1. Newrozabad
2. Kotma
3. Kurasia
4. Burhar
5. Amalai
6. Rungta
7. Sonawani
8. Duman Hill
9. West Chirimiri
10. Katkana.
11. Malga

61. Naba Kaojora
62. Jambad
63. Lachipur
64. Ghanashyam
65. Ghanashyam OCP
66. Dhandadih OCP
67. Bankola
68. S.S. Pur
69. Moira
70. Khandra
71. Shankarpur
72. Tilaboni
73. Kumardih—A
74. Kumardih—B
75. Murdih OCP
76. Pandaveswar
77. Kendra
78. Samla
79. Khottadih
80. Manderboni
81. Madhaipur
82. Darula
83. Natundanga
84. Dalurband
85. Dalurband OCP
86. P.P. OCP

2. Run of Mine Coal is coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.

3. The fraction of the Run of Mine Coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called Steam Coal.

4. The fraction that remains after Steam Coal has been removed from the Run of Mine Coal is called Slack Coal.

5. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the largest apertures, shall be termed Steam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures, shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.

6. Run of Mine Coal which has been screened or crushed to limit the top size to any maximum limit within the range of 200 mm-250 mm shall be priced at the same rates as Slack Coal.

7. Hand picked coals comprise lumps of coal picked out from the Run of Mine Coal of collieries in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.

8. Coking Coal, Weakly Coking Coal, Semi-coking Coal which fall outside the classification shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classification respectively.

9. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS : 1350—1959 of middling at the washery and exceeds 10 per cent the price of middlings fixed in Table II, shall be reduced by Re. 1 for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro-rata.

10. When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 kilo calories per kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Re. 1/- for every 100 kilocalories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 kilocalories per kilogram, fraction pro-rata.

11. Pithead prices fixed above are F.O.R. colliery siding prices, but where separate agreements for carrying coal or coke over long distances by road from the pithead to the loading point exist or are entered into, the cost of such carriage from pithead shall be governed by such agreements.

12. The pithead prices fixed in Tables II and III and IV are exclusive of royalty and cesses, if any, levied by Government, local authorities or other bodies, duties of excise and sales tax.

For removal of doubts, it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess duties of excise and sales tax to the pithead prices fixed in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be the amount payable on raw coal of the same useful heat value range.

13. The pithead prices of hard coke fixed in Table V and of soft coke fixed in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or Soft Coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amount of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax from purchasers of Hard Coke, and Soft Coke in addition to the prices fixed for them. When the impost is on the raw

coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of soft coke or hard coke shall be ascertained by multiplying the rates for raw coal by 1.35 for soft coke and 1.50 for hard coke.

14. Prices fixed shall not apply to coke or coal sold for export outside India.

15. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the fixed prices.

16. The prices fixed in Table V for Hard Coke and Table VI for soft coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimetres size, low temperature carbonisation coke, pelletised coke or briquettes.

17. The prices fixed in Table V for by-product Hard Coke Premium and Beehive Hard Coke Premium shall be increased at the rate of Rs. 30/- per tonne for every 1 per cent decrease in ash content below 23 per cent, fraction pro-rata.

18. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 25 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 30 per cent, fraction pro-rata.

19. The prices fixed in Table V for Beehive Hard Coke ordinary shall reduced at the rate of Rs. 20 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 36 per cent, fraction pro-rata.

20. When the ash plus moisture content of semi-coking Grade I coals is less than 17 per cent, the prices payable for Semi-Coking Grade I Coals as per Table IV shall be increased at the rate of Rs. 5 for every 1 per cent decrease in ash plus moisture content below 17 per cent, fraction pro-rata.

[28012/1/82-CA]  
L. N. LADHA, Jt. Secy.

गु.सं-१५५

(अधिसूचना सं० का० प्रा० १३(अ), दिनांक ७ जनवरी, १९८४)

संदर्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1. पृष्ठ 1, कालम 1, पैरा 1, नहीं पंक्ति	"कोयले का" के स्थान पर	"कोयले या" पढ़ें
2. पृष्ठ 2, कालम 2, पैरा 4 का उप-पैरा 3, दूसरी पंक्ति	"संक्षेप" के स्थान पर	"सापेक्ष" पढ़ें
3. पृष्ठ 2, कालम 2, पैरा 5, पांचवी पंक्ति	"साक्षेप" के स्थान पर	"सापेक्ष" पढ़ें
4. पृष्ठ 3, मार्गशी-2 का शीर्षक	"कोककारी कोयला" के स्थान पर	"अकोककारी कोयला" पढ़ें
5. पृष्ठ 3, मार्गशी-2 में दूसरा पैरा शुरू होने ही	"3" के स्थान पर	"2" पढ़ें
6. पृष्ठ 4, मार्गशी-5, कालम 3 में चौथी पंक्ति	"640.00" के स्थान पर	"680.00" पढ़ें
7. पृष्ठ 4, टिप्पणी में पैरा 1, तिसरी पंक्ति	"उत्पत्ति" के स्थान पर	"उत्पादित" पढ़ें
8. पृष्ठ 4, टिप्पणी के कोरिया-रीखा कोयला क्षेत्र में क्रम सं० 1	"सुरोजाबाद" के स्थान पर	"सुरोजाबाद" पढ़ें
9. पृष्ठ 4, टिप्पणी में क्रम सं० 30	"जे० म० नगर" के स्थान पर	"जे० के० नगर" पढ़ें
10. पृष्ठ 5, कालम 1, क्रम सं० 40	"कुलुस्टोरिया" के स्थान पर	"कुलुस्टोरिया" पढ़ें
11. पृष्ठ 5, कालम 1, क्रम सं० 75	"मौरडाह" के स्थान पर	"मोरडीह" पढ़ें

# CORRECTION SLIP

(Notification No. S.O. 13(E), dated 7th January, 1984)

## A. Substitution

1. Page 6 column 1, 5th line

For 363(C)

Read 363 (E)

2. Page 7 Table-II sub-heading 1

For calories

Read collieries.

## B. Addition

Page 6 Column 2, Table I

insert 'C' & 'D'  
under column 3 of  
Table I before the 3rd  
and 4th entries under  
Col. 4 of Table I res-  
pectively.

